

Regd. Offi. / Works

VILL. BHAINSA, 22-Km. STONE, MEERUT-MAWANA ROAD, P.O. SANDHAN, MAWANA - 250401, U.P. (INDIA) Ph. 01233-271137, 271515, 274324, Mob.: 8126131100, 9927900176 e-mail: accounts@sangalpapers.com, sangalpapers@gmail.com sales@sangalpapers.com, website: www.sangalpapers.com

CIN:-L21015UP1980PLC005138 PAN NO:- AACCS4253J

GSTIN: 09AACCS4253J2Z5

To, The Secretary, Bombay Stock Exchange Limited, P. J. Tower, Dalal Street Fort, Mumbai-400001.

Date: 14/09/2020

Respected Sir/Madam,

#### Sub.: COPY OF ADVERTISEMENT PUBLISHED IN NEWSPAPER- FINANCIALS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2020:

This is inform you that pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, enclosed copy of the Financials of the Sangal Papers Limited published on Monday, 14th September, 2020, in the "Financial Express", English News paper and "Jansatta", Hindi news papers.

Kindly take on your records,

Thanking you, For Sangal Papers Limited,

M.No. A48332 Company Secretary

Place: Mawana

Retail inflation

lockdowns: CEA

ATTRIBUTING THE RISE in

inflation to supply-side fric

tions, chief economic adviser

KV Subramanian has exuded

confidence that retail inflation

will come down in the days

ahead with the easing of

According to the government data, retail inflation rose

to 6.93% in July, mainly driven

by rising prices of food items

like vegetables, pulses, meat

lockdowns.

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 13

to soften with

easing of

Place: Navi Mumbai Date: September 14, 2020

## GlobalSpace Technologies Limited

CIN: L64201MH2010PLC211219

Address: 605, 6th Floor, Rupa Solitaire Building, Millenium Business Park, Navi Mumbai, Thane - 400710.

Tel No: 022-49452015, Email id:- investors@globalspace.in, website:- www.globalspace.in

	Consolidated			Standalone					
Year ended	r ended	Quarte	Year ended	ended	Quarter	Particulars			
March 31, 2020	June 30, 2019	2020	March 31, 2020						
Audited-	Certified by the management	Unaudited	Audited	Certified by the management	Unaudited				
					-	Particulars			
2,591.3	503.10	587.13	2,490.89	503.10	550.25	Total income from operations			
436.0	128.05	275.02	553.04	128.05	269.49	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)			
436.0	128.05	275.02	553.04	128.05	269.49	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)			
297.5	116.59	206.49	416.86	116.59	205.84	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)			
294.1	116.59	205.98	413.45	116.59	205.33	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			
1,145.6	1,145.66	1,145.66	1,145.66	1,145.66	1,145.66	Equity Share Capital			
2,188.3	_		2,283.77	-	-	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
	<del>- 1</del>		<u></u>	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for					
2.4	1.02	1.80	3.64	1.02	1.80	continuing and discontinued operations) not annualised			
2.4	1.02	1.80	3.64	1.02	1.80	Basic Diluted			

of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e https://www.bseindia.com/ and the listed entity i.e https://www globalspace.in/investor.html For Globalspace Technologies Limited

Krishna Murari Singh

lanaging Director DIN: 03160366

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN-L2101565UP1980PLC005138) Regd. Office: VILL BHAINSA, P.O. SANDHAN, 22 KM- MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401 PPHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com (Rs. In Lacs except EPS)

EXTRACT OF THE UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30°1 JUNE: 2020

Particulars	(30-06-2020)	(31-03-2020)	(30-06-2019)	(31-03-2020)
Particulars	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations (Net)	1662.19	2805.44	3680.64	12651.79
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or				
Extraordinary items)	(123.90)	31.93	43.83	190.39
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, after Exceptional				
and/or Extraordinary items)	(123.90)	31.93	43.83	190.39
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary				
items)	(123.90)	46.43	40.06	180.27
Total Comprehensive income for the period	(117.01)	40.64	40.63	177.17
Equity Share Capital	130.73	130.73	130.73	130.73
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the				
Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	3138.04
Earnings Per Share (before and after extraordinary items)				
(of Rs. 10/- each)				
Basic:	(9.48)	3.55	3.06	13.79
Diluted:	(9.48)	3.55	3.06	13.79

The above is an extract of unaudited financial statements for the Quarter ended 30th June, 2020 were reviewed by the Audit committee and therefore approved by the Board of Directors of the company in the Meeting 12th September, 2020. As per Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, The Company opted to publish the Standalone Unaudited Financial Resu of the Company, it will be also available on the Company's website www.sangalpapers.com as well as on the stock exchange' With the effect from 1st April, 2017 the Company has adopted IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 201

read with the relevant rules issued there under accordingly, the financially result of the company for the quarter ended 30th June 2020 have been prepared in accordance with IND AS and Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015 and SEBI Circula For and on behalf on Sangal Papers Limited

Himanshu Sanga (Managing Director (DIN-00091324

Place: Mawana Date: 12/09/2020

#### CELLA SPACE LIMITIED CIN: L93000KL1991PLC006207

Reg. Office: Sree Kailas, 57/2993/94, Paliam Road, Ernakulam, Kochi -16

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th June 2020 STANDALONE(Amounts in lakhs)

200.000.000.00		Quarter Ending		Year to Date
Particulars	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
Total Income from Operations (net)	36.58	59.72	13.55	331.55
Net Profit/ (loss) from ordinary activities before tax	(13.81)	(37.03)	(113.47)	(117.93)
Net Profit/ (loss) for the period after tax Total Comprehensive income for the period	(13.81)	166.81	(113.47)	85.91
and other comprehensive income (after tax)	(13.81)	167.31	(113.47)	86.41
Equity Share capital	1915.12	1915.12	1820.12	1915.12
Beserves (Excluding revaluation reserve) Earnings per share (Rs.10/- each))	-	- 3		_
- Basic - Diluted	(0.07) (0.07)	0.87 0.87	(0.62) (0.58)	0.46 0.46
Revenue from operations (net)	35.94	40.31	12.06	268.86
EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITE	D FINANCIAL RÉ	SULTS FOR THE QU	JARTER ENDED 3	0 <sup>th</sup> JUNE 2020
C S		CONSOLIDATED/A	mounts in lakhs	

	CONSOLIDATED(AMOUNTS III lakits)						
		Year to Date					
Particulars	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited			
Γ	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020			
Total Income from Operations (net)	36.55	59.94	13.55	333.10			
Net Profit/ (loss) from ordinary activities before tax	(14.19)	(32.04)	(114.34)	(118.42)			
Net Profit/ (loss) for the period after tax	(14.19)	162.30	(114.34)	/5.92			
Total Comprehensive income for the period and other comprehensive income (after tax)	(14.19)	162.80	(114.34)	76.42			
Equity Share capital	1915.12	1915.12	1820.12	1915.12			
Reserves (Excluding revaluation reserve) Earnings per share (Rs.10/- each)) - Basic - Diluted	(0.07) (0.07)	0.85 0.85	(0.63) (0.58)	0.41 0.41			
Revenue from operations (net)	35.94	40.31	12.06	268.86			

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with BSE Ltd under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the quarterly/annua financial results are available on the BSE website www.bseindia.com and on the Company website www.sreekailas.com The above results were reviewed by the Audit Committee and there after approved by the Board of Directors in their meetings held on Septhember 12, 2020. The Statutory Auditors have carried out their Audit of the above financial results. For Cella Space Limited

Place: Chennai Date: 12-09-2020

S. Rajkumai Vice Chairman & Managing Directo



### Regd. Office: UL-25, Royal Complex, Bhutkhana Chowk, Dhebar Road, Rajkot-360002

Guiarat Phone: +91-2827-253006, 252056, Email: info@captainpolyplast.in, Website: www.captainpolyplast.com, CIN NO.: L25209GJ1997PLC031985

#### **NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING** 23<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

The 23RD (Twenty Three) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visuals Means ("OAVM") on Friday, 09th October, 2020 at 10:00 A.M. (IST) in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 Dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI circular") (collectively referred to as 'relevant circulars') to transact the business(es) set out in the notice calling AGM. Members will be able to attend the meeting through VC or OAVM. Members participating through VC or OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section of 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2019-20 will be sent electronically to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.captainpolyplast.com on the website of stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com . Members can attend and participate in AGM, for joining the AGM, instructions are provided in the Notice of AGM. Further, Members who do not register their email addresses with the RTA / Depository Participants will not be able to participate in the meeting.

Manner of registering / updating email addresses :

a) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to (compliance@captainpolyplast.in).

 b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to (compliance@captainpolyplast.com).

Manner of casting vote(s) through e-voting

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of AGM and in particular instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

> By order of the board For Captain Polyplast Limited

Khyati Mehta Company Secretary **GST SHORTFALL** 

# 12 states opt for no-cost special borrowing window

**FE BUREAU** New Delhi, September 13

**AS MANY AS** 12 states have opted for the first of the two borrowing options mooted by the Centre to bridge their GST revenue shortfall in FY21, which means they will borrow to make good the shortfall to the extent of that caused by the GST implementation without incurring any interest cost themselves. Also, they will get additional fiscal headroom without riders.

This option, which the Centrewants to incentivize, entails total borrowings of ₹97,000 crore by all states combined. The other option is to borrow to offset the entire shortfall of ₹2.3 lakh crore, inclusive of the part caused by Covid-19 pandemic. The Centre has made it clear that both the options

Sebi clarifies on

asset allocation

multicap schemes

**SECURITIES** 

**EXCHANGE** Board of India

(Sebi) on Sunday said it will

examine the proposals of the

mutual fund industry regarding

the changes the regulator had

announced on Friday in the asset

allocation of multicap schemes.

According to Sebi, these changes

were made to achieve the objec-

tive of the true-to-label and

have many options to meet with

the requirements of its circular

pertaining to asset allocation

framework for multi cap

schemes based on the prefer-

was felt to review characteristics

of multicap schemes and take necessary steps to clearly distin-

guish multicap schemes from

other categories. Sebi clarified

that apart from rebalancing

their portfolio in the multicap

schemes, they could inter-alia

facilitate switch to other

schemes by unitholders, merge

their multicap scheme with

their largecap scheme or convert

their multicap scheme to

another scheme category. Fund

houses have been given time till

January 31, 2020 to achieve

compliance with the circular.

The regulator said the need

ence of their unit holders.

It also said mutual funds


appropriate benchmark.

AND

Mumbai, September 13

norms for

**FE BUREAU** 



don't undermine the commitment to fully compensating the states for the GST shortfall. According to finance min-

istry sources, the states that have preferred the first option are Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Tripura, UP, Uttarak-

PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, September 13

The issues of ongoing LAC standoff, handling of the coro-

navirus pandemic and eco-

nomic slowdown are likely to

dominate the Monsoon ses-

sion of Parliament which

begins on Monday, with the

opposition demanding a dis-

cussion on them, while the

government is seeking passage

of nearly two dozen legisla-

tions during the Covid-cur-

The 18-day session is being

tailed proceedings.

hand and Odisha. Only one state, namely, Manipur has so far opted for the Borrowing Option 2. Also, a few states instead of expressing their option preference have submitted their views to the chairperson of the GST Council and are yet to decide on the options, the sources added. Six more states — Goa,

Himachal Pradesh — will be giving their option in a day or two. West Bengal and Kerala, it may be recalled, had reiterated that their states won't be on boardwith the borrowing plan suggested by the Centre to meet the states' protected

Assam, Arunachal Pradesh,

Nagaland, Mizoram and

offers to raise the loan. In the last GST Council, the Center proposed that states

Monsoon session: Opposition demands

LAC standoff, Covid, economy discussion

Goods and Services Tax rev-

enue target, unless the Centre

pensation which would ensure a G-Sec linked rate of interest. The interest cost would be borne from the proceeds of the compensation cess fund accruing after June, 2022. The states have been given two options — either to borrow ₹97,000 crore with an additional fiscal deficit headroom of 0.5% or ₹2.35 lakh crore without any FRBM relaxation.

can borrow under a special dis-

Under the ₹97,000 crore borrowing option, the loan will not be considered as debt on states' books and the entire borrowing cost – principal and interest repayment -- will be borne by compensation cess fund (to be extended beyond June 2022). Whereas, states will pay interest on the higher ₹2.35 lakh crore loan option, and a part of it would be treated as states' debt.



and fish. However, wholesale price-based inflation declined 0.58% in July, even as food items turned costlier.

"If you look at inflation...it's primarily because of those supply-side frictions, but as local lockdowns are actually being reduced, these frictions should basically go down," he told PTI. "Overall, the difference between wholesale and retail inflation is primarily due to supply-side factors which should decrease and therefore going forward even the retail inflation should ease," Subramanian said.

### Devendra Darda elected ABC chairman for year 2020-21



**ENS ECONOMIC BUREAU** New Delhi, September 13

DEVENDRA VIJAY DARDA managing director of Lokmat Media, has been elected chairman of the Audit Bureau of Circulations (ABC) for the year 2020-2021.

Lokmat Media is one of the largest regional media groups in India and has presence in print, digital, TV and events. Devendra Darda has served on several media industry bodies, namely INS and IFRA. He is also president of various educational institutions in Yavatmal, Maharashtra, and is on the managing committee of the Western India Football Association.

His father — Vijay Darda, chairman, Editorial Board of Lokmat Media, and a former member of Rajya Sabha — has previously chaired the ABC.

Karunesh Bajaj, ITC Ltd, representing advertiser category on the council was unanimously elected deputy chairman of ABC for the year 2020-2021. Publishers, advertisers and

advertising agencies are also represented on the organisation, said ABC secretary general HB Masani.

#### held amid unprecedented precautionary measures against Both houses will be Covid-19 due to a continuing The Congress and other spike in cases. On the eve of the adjourned for an hour after the opposition parties raised these session, the Union Health Mindemands in the first business obituary references. advisory committee (BAC) istry reported 94,372 fresh Rajya Sabha will then hold cases in 24 hours. meeting for Lok Sabha chaired by Speaker Om Birla today, but The government has listed 23 legislations for considerathe time for these discussions tion and passage including 11 is yet to be allocated.

bills replacing ordinances.

Several of the opposition parties are likely to oppose four of these bills replacing ordinances relating to the farm sector and the banking regulation amendments.

The opposition is seeking to corner the government on its handling of the standoff with China at the Line of Actual Control in Ladakh, the Covid-19 situation, economic downturn and unemployment, and is pressing for discussions on these issues.



the business schedule for the first week. The same demands were raised by the Congress in the BAC for Rajya Sabha too.

The session will commence tomorrow with both houses paying obituary references to former President Pranab Mukherjee and other sitting and former members who have died during the interregnum period.

the election to the post of Deputy Chairman, while Lok

Sabha will take up 'The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020' and 'The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020', to replace the ordinances issued earlier. Parliamentary Affairs Min-

ister Pralhad Joshi said that the government is ready to discuss all issues decided by the BAC and has appealed to all parties for their cooperation.

He said a meeting of leaders of various parties would be held on Tuesday on whether a discussion on the India-China border issue will be held.

## BEL upbeat on defence business, seeks to ride Centre's self-reliance push

PRESS TRUST OF INDIA Bengaluru, September 13

Bharat Electronics is upbeat about its business prospects in the defence sector seeking to ride government's thrust on self reliance though it's facing the prospect of short-term adverse impact from Covid-19.

In fact, the Bengaluru-based defence PSU was sitting on an order book of ₹51,973 crore as on April one this year, according to company officials. Defence contributed 82% of sales revenue of BELin 2019-20, up from 68% in the previous fiscal. The



remaining 18% revenue came from the non-defence sector.

BEL's chairman and managing director MV Gowtama said the government's emphasis on 'Make in India' in the defence sector provides a great opportunity for the company to enhance indigenous efforts and to address the emerging opportunities.

The Navratna PSU under the Ministry of Defence achieved a turnover of ₹12,608 crore during 2019-20, a growth of 6.94% cial year. "BEL is targeting a healthy growth of 12-15% during 2020-21,"Gowtama said in a September 7 letter. The real impact of the pan-

compared to the previous finan-

demic on the company is to be seen in the near future as the situation is evolving, he said, adding that it has started taking mitigation measures to reduce the impact. According to the 2019-20

annual report, the internal study and analysis predict that Covid-19 may impact the company's operations in the short-term in terms of deliver schedules.

(₹ in Millions)



#### BF INVESTMENT LIMITED Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune- 411036

CIN: L65993PN2009PLC134021 Tel.: +91 20 2672 5257 Email: secretarial@bfilpune.com Website: www.bfilpune.com Extract of Standalone Unaudited and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2020.

Standalone

Quarter ended Year ended Quarter ended Year ended Sr. **Particulars** 30-06-2020 31-03-2020 30-06-2019 31-03-2020 30-06-2020 31-03-2020 30-06-2019 31-03-2020 No. Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Unaudited Audited Total Income from operations 39.35 289.45 33.43 718.60 39.35 70.71 33.43 221.34 Net Profit / (Loss) for the period 30.11 262.22 26.76 651.12 30.11 43.48 26.76 153.86 (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax 30.11 262.22 26.76 615.32 30.11 43.48 26.76 118.05 (after Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax 585.11 448.71 1,443.23 22.01 256.46 24.79 (35.43)335.59 (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) 1,595.19 (3.917.25)(1,018.92)(4,162.40)1,536.49 (3.826.40)(710.56)(3,412.64)for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax) Share Capital 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34 188.34 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance 9,206.50 16,921.45 Sheet of previous year) Earning Per Share (of ₹ 5/- each) (Not annualised) 0.58 6.81 0.66 15.53 (0.94)11.91 8.91 38.31 Basic 0.58 6.81 0.66 15.53 (0.94)11.91 8.91 38.31 Diluted

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Standalone / Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the company website www.bfilpune.com. for BF Investment Limited

New Delhi

Mr. B.S. Mitkari Director DIN:03632549

financialexp.epap.in

Date: 14/09/2020

Place: Rajkot

Place: Pune

Date: 12.09.2020

## प. बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला

चिनसुराह, 13 सितंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गणेश रॉय का शव गोघाट रेलवे स्टेशन के पास खनाती क्षेत्र में स्थित उसके गांव के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। भाजपा ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सदस्यों ने रॉय की हत्या की है। तृणमूल ने इस आरोप का खंडन किया है। पुलिस ने बताया कि रॉय शनिवार से लापता था और उसकी मौत के कारणों की जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने कहा कि उसकी हत्या राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने रॉय की हत्या कर आधी रात

• पुलिस सूत्रों ने बताया कि गणेश रॉय का शव गोघाट रेलवे स्टेशन के पास खनाती क्षेत्र में स्थित उसके गांव के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। भाजपा ने आरोप लगाया कि सतारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने रॉय की हत्या की हैं। तृणमूल ने इस आरोप का खंडन किया है।

को उसका शव पेड़ से लटका दिया ताकि क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। घोष ने कहा, 'भाजपा कार्यकर्ताओं को लटकाकर उनकी हत्या करना नया चलन बन गया है। लेकिन हम इसका कडा प्रतिरोध करेंगे। भाजपा को मिल रहे समर्थन से तृणमूल कांग्रेस भयभीत है।' वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि उसके

सदस्य रॉय की हत्या में शामिल नहीं हैं।स्थानीय तृणमूल नेता मानस मजूमदार ने रॉय की मौत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और कहा, 'इस घटना में हमारी पार्टी का कोई सदस्य शामिल नहीं है।

उन्होंने कहा. 'जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी।' हगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, 'इस बर्बरता का अंत होना चाहिए। कहां हैं लोकतंत्र के रक्षक? पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार हो रही हत्या पर वे चुप क्यों हैं?' घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुछ देर के लिए गोघाट-आरामबाग सड़क मार्ग अवरुद्ध किया लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। पिछले कुछ साल में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के शव लटके पाए गए हैं।

## भ्रष्टाचार सूचकांक: भारत की स्थिति में सुधार के लिए याचिका दायर

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

सप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 'वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' में भारत की खराब रैंकिंग में सुधार के लिए सुझाव देने को लेकर विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' द्वारा तैयार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआइ) में 180 देशों के बीच भारत 80वें स्थान पर है। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय

द्वारा दायर एक जनहित याचिका में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष 20 देशों में शामिल रहे देशों के अच्छे आचरण की पड़ताल करने के लिए और रिश्वत और काले धन के सृजन का उन्मूलन करने के बारे में सुझाव देने के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

वकील अश्वनी कुमार दुबे के जरिए दायर की गई अपनी जनहित याचिका में उपाध्याय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अलावा भारत के विधि आयोग, गृह मंत्रालय और कानून व न्याय मंत्रालय को इसमें पक्ष

बनाया है। याचिका में भ्रष्टाचार के खतरे, काले धन का सजन और 'बेनामी' लेन-देन को खत्म करने के लिए उपाय और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के वास्ते सुझाव दिए जाने के लिए विधि आयोग को निर्देश दिए जाने का अनुरोध भी किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आजादी के 73 साल बाद भी, 50 फीसदी आबादी संकट में है और वे आजीविका में कठिनाइयों का सामना कर रही है।

## कार ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी, तीन लोगों की मौत

जैसलमेर, 13 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान के जैसलमेर के सांगड थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह एक अनियंत्रित कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी जिससे ट्रॉली चालक और कार में सवार दो लोगों सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई जबिक छह अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अमदाबाद से रामदेवरा जा रही एक अनियंत्रित कार देवीकोट गांव के पास आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, जिससे बाडमेर निवासी ट्रैक्टर चालक देवाराम और कार सवार अमदाबाद निवासी जिगर भाई पटेल और रमेश भाई की मौत हो गई जबकि हादसे में छह अन्य लोग घायल हो गए।

## ठाणे : एकांतवास केंद्र सहायक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार

ढाणे, 13 सितबंर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक कोविड-19 पृथकवास केंद्र के सहायक को वहां एक युवती के साथ कथित बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

नवघर पुलिस थाने के निरीक्षक संपत पाटील ने बताया कि घटना जन की है लेकिन शनिवार को यह उस

वक्त सामने आई जब युवती ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि महिला ने शिकायत में कहा है कि घटना उस वक्त की है जब वह मीरा रोड़ स्थित एक पृथकवास केंद्र में भर्ती 11 वर्षीय रिश्तेदार की देखभाल के लिए गई थी। पुलिस के मुताबिक महिला पृथकवास केंद्र में अपनी 10 माह की बच्ची के साथ ही रह रही थी ताकि कोरोना

संक्रमित उसके 11 साल के रिश्तेदार

की देखभाल हो सके।

पाटील ने बताया कि आरोपी गर्म पानी देने के लिए उसके कमरे में जाता था और उस दौरान उसने महिला के साथ कथित रूप से अनुचित बर्ताव किया, जिसका महिला ने विरोध किया, इस पर आरोपी ने उसकी बच्ची की हत्या करने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने जुन के पहले हफ्ते में महिला के कमरे में उससे तीन बार बलात्कार किया।

## वेनिस फिल्म महोत्सव में चैतन्य ताम्हणे की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार

2. रिक्तियों की संख्या

3. योग्यता मापदण्ड

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

वेनिस फिल्म महोत्सव में निर्देशक चैतन्य ताम्हणे की मराठी भाषा की फिल्म 'द डिसाइपल' को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला है। महोत्सव में चीनी-अमेरिकी फिल्मकार क्लो झाओ को उनकी फिल्म 'नोमाडलैंड' के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से नवाजा गया है। शनिवार को महोत्सव के समापन समारोह के दौरान निर्णायक मंडल द्वारा मुख्य प्रतिस्पर्धा के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। निर्णायक मंडल में दो बार ऑस्कर पुरस्कार जीत चुकी केट ब्लैंचेट के अलावा निर्देशक जोना हॉग, क्रिश्चियन पेट्जोल्ड और वेरोनिका फ्रांज, उपन्यासकार निकोला लागिया और अभिनेता लुडीवाईन

सेगनियर और मैट डैमन मौजूद थे। भारतीय सिनेमा के कम उम्र के प्रतिभाशाली फिल्मकार ताम्हणे, मीरा नायर के बाद किसी यूरोपीय फिल्म महोत्सव की मुख्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने वाले देश के पहले निर्देशक बन गए हैं। 'द डिसाइपल', सफलता की दहलीज पर पहुंचे शास्त्रीय संगीतज्ञों की दुनिया को दिखाती है। फिल्म में एक भारतीय संगीतकार को दिखाया गया है जो अपनी कला में शुद्धता लाने का प्रयास करता है क्योंकि वह अपने पिता और गुरु द्वारा महान कलाकारों की कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ है। फिल्म को पिछले सप्ताह प्रदर्शित किया गया था जहां फिल्म को खूब सराहना मिली थी। ताम्हणे ने एक वक्तव्य में कहा, 'द डिसाइपल को लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य था।

एयर अफसर कमांडिंग वायुसेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-110010 भारतीय वायु सेना में अयोधि (नामांकित) पद पर भर्ती के लिए : कोर्स संख्या 03/2020

1. दिनांक 07 दिसंबर 2020 से वायु सैनिक प्रशिक्षण स्कूल बेलागवी में प्रारंभ होने वाले कोर्स संख्य 03/2020 के लिए अयोधि (नामंकित) पद पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदनपत्र आमंत्रित किर्

उम्मीदवार का जन्म दिनांक 03 दिसंबर 1992 से 03 दिसंबर 2003 के बीच में हुआ ह

(ग) 22 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार को भर्ती के समय अविवाहित होना चाहिए- 22 वर्ष रं

(क) पुरुष उम्मीदवार -मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण हो।

## संक्रमण के साथ बढ़ रहे हैं अवसाद और खुदकुशी के मामले

## संक्रमित होने पर खुद को पहुंचा रहे हैं चोट - खराब सेहत, बेरोजगारी, वित्तीय संकट से बढ़ी चिंताएं

नई दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा)।

महीनों तक घरों में बंद रहने के बाद अब लाखों लोग ऐसी दुनिया में बाहर निकल रहे हैं जो पूरी तरह बदल गई है। घर और संसार के बीच समायोजन के इस असहज से माहौल में लोग अवसाद से लेकर आत्महत्या के बारे में सोचने तक मानसिक सेहत की समस्याओं से दो-चार हो रहे

जहां महामारी ने बहुत सी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर दिया है, वहीं खराब सेहत. बेरोजगारी, वित्तीय संकट तथा रोजाना की चिंताओं ने लोगों की मानसिक समस्याओं को भी बढ़ा दिया है। नई दिल्ली स्थित अशोक सेंटर फॉर वैल-बीइंग के निदेशक और मनोचिकित्सक अरविद सिंह ने

• लंबे अनिश्चितता के दौर ने लोगों को अधिक चिड़चिड़ा बना दिया है। जो लोग हल्की-फुल्की चिंता की समस्या से जूझ रहे थे, उनकी परेशानी थोड़ी गंभीर हो गई है। इस तरह की परेशानी बढ़ने से खुद को नुकसान पहुंचाने -अरविंद सिंह, निदेशक अशोक सेंटर फॉर वैल-बीइंग के विचार भी पनपने लगते हैं।

कहा, 'लंबे अनिश्चितता के दौर ने लोगों को अधिक चिडचिड़ा बना दिया है। जो लोग हल्की-फुल्की चिंता की समस्या से जुझ रहे थे, उनकी परेशानी थोड़ी गंभीर हो गई है। इस तरह की परेशानी बढ़ने से खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी पनपने लगते हैं।' देशभर में जगह-जगह से लोगों के खुद को नुकसान पहुंचाने, खुदकुशी करने की खबरें आ रहीं हैं तो अनेक लोग अवसाद और तनाव से जूझ रहे हैं।

उदाहरण के लिए गुजरात में 108 आपात

एंबुलेंस सेवा को अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में लोगों द्वारा ख़ुद को क्षति पहुंचाने के 800 से अधिक मामलों की सूचनाएं मिलीं तो 90 मामले आत्महत्या के उनके सामने आए। अधिकारियों के अनुसार 25 मार्च को पूर्णबंदी लगने के बाद से इस तरह की शिकायतों की संख्या अचानक से बढ गई। अधिकारी विकास बिहानी के अनुसार आत्महत्या रोकथाम और परामर्श हेल्पलाइन पर सामान्य दिनों में हर महीने

आठ से नौ फोन कॉल आते थे लेकिन मार्च महीने

से यह संख्या दोगुनी हो गई। बंगलुरू स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस) के निदेशक बीएन गंगाधर ने बताया कि कोरोना से संक्रमित होने का पता चलने के बाद कुछ लोगों ने खुद को चोट पहुंचाई क्योंकि वे इस निराशा को सहन नहीं कर पा रहे थे। निमहन्स के ही मनोचिकित्सा विभाग के समन्वयक वी सेंथिल कुमार रेड्डी ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के कारणों का अध्ययन होना चाहिए।

गुजरात के मनोचिकित्सक प्रशांति भिमानी के अनुसार आर्थिक संकट से आत्महत्या की सोच को और बल मिल रहा है। कोलकाता की मनोचिकित्सक संचिता पकराशी ने कहा कि भविष्य को लेकर हर तरह की चिंता भी इस तरह की घटनाओं की बड़ी वजह है।

(Rs. In Lacs except EPS)

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN-L2101565UP1980PLC005138) Regd. Office: VILL BHAINSA, P.O. SANDHAN, 22 KM- MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401 PPHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com

	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
Particulars	(30-06-2020)	(31-03-2020)	(30-06-2019)	(31-03-2020)
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations (Net)	1662.19	2805.44	3680.64	12651.79
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or				
Extraordinary items)	(123.90)	31.93	43.83	190.39
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, after Exceptional				
and/or Extraordinary items)	(123.90)	31.93	43.83	190.39
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary	, ,			
items)	(123.90)	46.43	40.06	180.27
Total Comprehensive income for the period	(117.01)	40.64	40.63	177.17
Equity Share Capital	130.73	130.73	130.73	130.73
Reserve (Excluding Revaluation Reserve as shown in the				
Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	3138.04
Earnings Per Share (before and after extraordinary items)				
(of Rs. 10/- each)				
Basic:	(9.48)	3.55	3.06	13.79
Diluted:	(9.48)	3.55	3.06	13.79

. The above is an extract of unaudited financial statements for the Quarter ended 30th June, 2020 were reviewed by the Audi committee and therefore approved by the Board of Directors of the company in the Meeting 12th September, 2020. As per Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, The Company opted to publish the Standalone Unaudited Financial Result of the Company, it will be also available on the Company's website www.sangalpapers.com as well as on the stock exchange's www.bseindia.com

With the effect from 1st April, 2017 the Company has adopted IND AS prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued there under accordingly, the financially result of the company for the quarter ended 30th June 2020 have been prepared in accordance with IND AS and Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulation 2015 and SEBI Circular dated 30/06/2016.

For and on behalf on Sangal Papers Limited

Place: Mawana Date: 12/09/2020

Himanshu Sangal (Managing Director) (DIN-00091324) परिशिष्ट IV [देखें नियम s(1)]

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्राधिकृत अधिकारी)

मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड

मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड पंजी: /कॉर्पोरेट कार्यालय: डेवलपमेन्ट हाउस, MAGMA 24 पार्क स्ट्रीट कोलकाता 700016

**जैसा कि**, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद 'उक्त अधिनियम वर्णित) के अंतर्गत उक्त कॉर्पोरेट कार्यालय के मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 9 सितम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये मैग्मा फिनकॉर्प लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम	ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण	कब्जा लेने	सांविधिक मांग	मांग सूचना में
सं.			की तिथि	सूचना की तिथि	राशि (रु.)
1.	जसप्रीत सिंह,	गिरवी सम्पत्ति का सभी भाग तथा	9.9.2020	25.6.2020	ऋण खाता सं.
	सुरिन्दर पाल सिंह,	हिस् <b>साः</b>			(एचएल/ 0033/ एच/ 13/ 00004:
	भूपिन्दर कौर,	सम्पत्ति 1ः चांदनी बाग, पानीपत, न्यू			रु. 48,12,457.00 (रुपये अड़तालिर
	मै. दशमेश टायर्स,	सब्जी मंडी, वार्ड नं. 11, तहसील			लाख बारह हजार चार सौ सत्ताव
	मै. गुरु नानक टायर्स	एवं जिला पानीपत- 132103 में			मात्र)
	ऋण खाता सं.	स्थित मकान सं. 386, माप 31.93			एचएल/ 0033/ एच/ 13/ 000049, रु
	(एचएल/ 0033/ एच/	वर्ग यार्ड्स, हलका नं. 14			26,83,796.00 (रुपये छब्बीस लाख
	13/ 000043 एवं	सम्पत्ति 2ः मकान सं. 289/12 (नया			तिरासी हजार सात सौ छियानवे मात्रः
	एचएल/ 0033/ एच/	एमसी नं. 321-ए/14, 520-521)			कुल राशिः रु. 74,96,253.00 (रुपर
	13/ 000049	उत्तरी भाग की सम्पत्ति, माप 100			चौहत्तर लाख छियानवे हजार दो सं
		वर्ग यार्ड्स, वार्ड नं. 12, कलण्डर			तिरेपन मात्र- 25.2.2020 को तथा उर
		चौक, तहसील एवं जिला पानीपत-			पर 14.55% प्रति वर्ष की दर से ब्याज
	c).	132103		,	
	-	•			

तिथि: 14.09.2020 स्थानः पानीपत

अधिक आयु का उम्मीदवार का विवाहित होना स्वीकार्य होगा वे उम्मीदवार जो 22 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के हैं एवं विवाहित हैं, विवाह प्रमाणपत्र की 01 प्रतिलिपि एवं अपनी पत्नी एवं बच्चों का विवरण (नाम एवं जन्मतिथि सहित) 02 संयक्त फोटोग्राफ भी जमा करेंगे। (च) उम्मीदवार को आवंटित की गई ट्रेड में कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छ्क उम्मीदवार सादे कागज पर लिखित प्रार्थनापत्र के साथ अपन

बायोडाटा लगाकर दिनांक 15 सितंबर (पुनः) 15 सितंबर 2020 को अपराहन 2 बजे तक वायु सेन केन्द्रीय लेखा कार्यालय को आवेदन करें। 5. समुची चयन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 से संबंधित विशेष दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन

किया जाना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक उद्घोषणा [दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत] श्री बालाजी बेटेल नट्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ एतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने 11.9.2020 को श्री बालाज

बेटेल नटस प्राईवेट लि. का परिसमापन शरू करने का आदेश दिया है। एतददारा श्री बालाजी बेटेल नटस प्राईवेट लि. के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 11.10.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल केडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी केडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। परिसमापक का नाम तथा हस्ताक्षर: विक्रम सिंह राठौर

तिथि: 11.9.2020 स्थान: नई दिल्ली

सार्वजनिक उदघोषणा

भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 32 एवं 33 के अंतर्गत क्लोवर फॉर्जिंग एंव मशीनिंग प्रा. लि. (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं के लिए आशंका

1.	कापारट ऋणधारक का नाम	क्लावर फार्जिंग एवं मशानिंग प्रा. ।ल.
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	30 मई, 2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेर ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	, ·
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U29221DL2012PTC236706
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय, (यदि कोई हो) क पता	। पंजीकृत कार्यालयः ऑफिस नं. डीजीजे 701, टावर-बी, डीएलएफ टावर । जसोला, नई दिल्ली-110044, भारत प्रधान कार्यालयः प्लॉट नं. बी-21, फाइव स्टार एमआईडीसी, शेन्ड्रा औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431154
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	2 जनवरी, 2020
7.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉसल्वेंर्स प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	
8.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ईवाई रीस्ट्रक्चरिंग एलएलपी, द रूबी, 17वां तल, 29, सेनापित बापत मार्ग दादर (वेस्ट), तुलसी पाईप रोड, कसरावाडी, दादर, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400028 ईमेलः ip.clover@in.ey.com / rohitmehra@hotmail.com
9.	ई-नीलामी की तिथि	नीलामी शुरू होने की तिथि- 6 अक्टूबर, 2020, 10 बजे पूर्वा. में नीलामी समाप्त होने की तिथि- 6 अक्टूबर, 2020, 5 बजे अप. में
10.	प्रक्रिया दस्तावेज प्राप्त करने का तरीका	ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्ते तथा बिक्री के लिए परिसम्पत्तियं के विवरण प्रॉसेस मेमोरैण्डम में दिए गए हैं जिसे इच्छुक बोलीदात ip.clover@in.ey.com पर अभिरूचि की अभिव्यक्ति भेजकर प्राप्त क सकते हैं।
11.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	26 सितम्बर, 2020
12.	नीलामी प्रक्रिया का विषय वस्तु	प्रक्रिया मेमोरैण्डम में निर्दिष्ट रूप में क्लोवर फॉर्जिंग एंड मशीनिंग प्रा. लि. वे परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को आमंत्रण
13.	बोली जमा करने की प्रक्रिया	कॉर्पोरेट ऋणधारक के परिसमापक द्वारा जारी प्रक्रिया मेमोरैण्डम में यथ निर्दिष्ट रूप में
14.	बिक्री की पद्धति	बिक्री की पद्धति खुली नीलामी है जिसमें बोलीदाता ओपन विण्डों के दौरान

आईएनआर 2,13,05,000/-बोलीदाता ध्यान रखें कि उपरोक्त ई-नीलामी प्रक्रिया दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 ("संहिता") तथा उसके अंतर्गत संबंधित विनियमनों के अनुसार संचालित की जा रही है परिसमापक को बिना कारण बताए किसी भी समय तथा किसी भी संदर्भ में इस आंमत्रण को संशोधित

तिथि: 14 सितम्बर, 2020 स्थान: औरंगाबाद, महाराष्ट

एवं/ अथवा रद्द करने का अधिकार है।

रोहित मेहरा IBBI/IPA-001/IP-P00799/2017-2018/11374

हस्ता./-

अन्य बोलीदाताओं की अन्य प्रतिस्पर्धी बोलियों को देख सकते हैं। आगे

विवरण सीडी के परिसमापक द्वारा जारी प्रक्रिया मेमोरैण्डम में वर्णित है।

# महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र है जारी: उद्धव

मुंबई, 13 सितंबर (भाषा)।

राजनीतिक और कोरोना दोनों ही मोर्चे पर विरोधियों की आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का एक षडयंत्र चल रहा है।

ठाकरे ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए कहा, 'जो भी राजनीतिक तुफान आएगा, मैं उसका सामना करूंगा...मैं कोरोना से भी मुकाबला करूंगा।' महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 10 लाख के पार होने के एक दिन बाद ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित कार्यालय के हिस्से को ढहाने और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राज्य सरकार के कदमों को लेकर राजनीतिक आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में बोलते हुए

को देखें और यह ईपीसीएच की वेबसाइट www.epch.in पर भी उपलब्ध हैं।

ठाकरे ने लोगों को भरोसा दिया कि वह राजनीतिक संकट से भी लड़ेंगे। ठाकरे ने कहा, 'राजनीति पर जवाब देने के लिए मुझे मुख्यमंत्री का मुखौटा उतारना होगा। मैं नहीं बोलता, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है।' ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 स्थिति, चक्रवात और बाढ़ से प्रभावी तरीके से निपटी और वह जनता के समर्थन से राजनीतिक तुफान से भी निपटेगी। उन्होंने कहा, 'हमने 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत धीरे-धीरे खोलना शरू कर दिया है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत वे राजनीति में लिप्त हो सकते हैं। महाराष्ट को बदनाम करने का एक षडयंत्र चल रहा है।' उन्होंने कहा, 'हमें 15 सितंबर से शुरू होने वाले 'मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी' (कोरोना वायरस के खिलाफ) अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए।



#### ह्रस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् **Export Promotion Council for Handicrafts** सीआईएन: U20299DL1986NPL023253

पंजीकृत कार्यालयः ईपीसीएच हाउस, प्लॉट नंबर 1, पॉकेट 6 व 7, एलएससी, सेक्टर-सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 टेलीफोनः 011-26135256, फैक्सः 011-26135518/19, ई-मेल आईडीः mails@epch.com वेबसाइटः www.epch.in असाधारण आम बैठक की नोटिस और ई—वोटिंग की सूचना

सूचित किया जाता है कि परिषद की असाधारण आम बैठक(इजीएम) दिनांक 30 सितम्बर, 2020 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे, रीजेंसी — लोअर लोंबी लेवल, होटल The Lalit, बाराखम्बा अवेनुए कनोंट प्लेस नई दिल्ली 110001 में आयोजित की जा रही है। इसकी सूचना सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी भेजी जा चुकी है।

इजीएमकी सूचना तथा एक्सप्लेनटोरी नोट सभी पंजीकृत सदस्यों के ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है, जिन सदस्यों की ईमेल आईडी ईपीसीएच के पास पंजीकृत नहीं है उन्हें रवीकृत रूप में इसकी भौतिक प्रतियां उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं। यह ईपीसीएच की वेबसाइट www.epch.in पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, इजीएम की नोटिस राष्ट्रीय प्रतिभृति निक्षेपागार

लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के अनुसार, नियम ऊपर से पढ़ें, यथा संशोधित, परिषदने सदस्यों को नोटिस में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। परिषद ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। कृपया ई-वोटिंग पर निर्देशों के बारे में इजीएम की सूचना

रिमोट ई—वोटिंग 23 सितम्बर 2020, बुधवार को सुबह 10.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और 29 सितम्बर 2020, मंगलवार की शाम 5 बजे (भारतीय समयानुसार) खत्म होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उक्त समय और तारीख के बाद नहीं दी जाएगी। • इलेक्टॉनिक माध्यम से या असाधारण आम बैठक में मतदान करने के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ तारीख

31 अगस्त 2020, सोमवार है।

 एक व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि के आधार पर सदस्यों के रिजस्टर में दर्ज है, अर्थात सोमवार 31 अगस्त 2020, बैठक में उपलब्ध वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा। परिषद ने बैठक के दौरान भी मतपत्र / ई-वोटिंग के माध्यम से उन सदस्यों को मतदान की सुविधा प्रदान करेगी जिन्होंने

ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। बैठक से पहले रिमोट ई—वोटिंग के जिए मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनर्मतदान के हकदार नहीं होंगे.

 किसी भी सवाल के लिए, आप एनएसडीएल की ई—वोटिंग वेंबसाइट https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्य्) और 'ई—वोटिंग से संबंधित प्रश्न' की सहायता ले सकते हैं. किसी प्रकार की शिकायत के लिए, आप एनएसडीएल की प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हान्ने से 022-24994545 या टोलफ्री नंबर 1800-222-990, ईमेलः pallavid@nsdl.co.in अथवा evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान से संबंधित शिकायतों का भी समाधान करेंगी।

• प्रासंगिक नियमों के तहत निर्धारित कर मतदान का परिणाम घोषित किया जाएगा और इसे ईपीसीएच और एनएसडीएल की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। प्रशासन समिति के आदेश से

नई दिल्ली तारीखः 14 सितम्बर, 2020

हस्ताक्षर/-आर.के. वर्मा सचिव - ईपीसीएच

www.readwhere.com